

September 05, 2021

The Secretary
BSE Ltd.
Phiroze Jeejeebhoy Towers
Dalal Street
MUMBAI – 400 001

Scrip Code: 500370

Sub: Newspaper Clipping for Intimation of 52nd Annual General

Meeting through Video Conferencing / Other Audio Visual

Means ("VC/OAVM")

Dear Sir/Madam,

Pursuant to regulation 30 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith copies of advertisement for intimation of 52nd Annual General Meeting of the Company which will be held on Wednesday, September 29, 2021 at 11.00 A.M. through Video Conferencing / Other Audio Visual Means ("VC/OAVM") published in the newspapers.

Kindly take the same on records.

Thanking You,

Yours faithfully,

For Salora International Ltd.

(Anubhav Nigam)

Company Secretary & Compliance Officer

Membership No.: A59262

Encl.: As above

CIN: L74899 DL 1968 PLC004962, Email: info@salora.com

FINANCIAL EXPRESS

optiemus

OPTIEMUS INFRACOM LIMITED CIN: L64200DL1993PLC054086

Registered Office:- K-20, 2" Floor, Lajpat Nagar Part-2, New Delhi-110 024 Corporate Office:-D-348, Sector-63, Noida, Uttar Pradesh-201 307 E-mail ID: info@optiemus.com | Ph. No.: 011-29840906 | Website: www.optiemus.com NOTICE

Notice is hereby given that the 28" Annual General Meeting ("AGM") of the Company wil be held on Wednesday, the 29" Day of September, 2021 at 11:00 A.M. through Video Conferencing ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM") in compliance with the provisions of Companies Act, 2013 read with rules made thereunder and the Securities and Exchange Board of India ("SEBI") read with General Circular No. 14/2020, 17/2020, 20/2020, 02/2021 and all other applicable notifications and circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") and SEBL to transact the Ordinary and Special Business as set out in the Notice of AGM. Company's Registered Office i.e. K-20, 2" Floor, Lajpat Nagar Part-II, New Delhi-110 024 will be considered as venue for the purpose of

In compliance with the above circulars, electronic copies of the Notice of AGM along with the Annual Report for the Financial Year 2020-21 have been e-mailed to all the shareholders whose e-mail addresses are registered with the Company/RTA/Depository Participants. The e-mailing of Notice of AGM have been completed on 3" September 2021 in conformity with regulatory requirements.

In terms of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with the Companies (Management and Administrations) Rules, 2014 and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company is providing facility for remote e-voting through Central Depository Services Limited ("CDSL") at the link https://www.evotingindia.com/ to enable the members to cast their vote electronically. The facility for e-voting shall also be made available during the AGM, for those members who have not already cast their vote by remote e-voting.

Shareholders, whose names are recorded in the Register of Members or in the Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories as on the cut-off date i.e. 22" September, 2021 shall be entitled to avail the facility of remote e-voting or e-voting during the AGM.

The remote e-voting period will commence from Saturday, 25th September, 2021 at 9:00 A.M. (IST) and will end on Tuesday, 28th September, 2021 at 5:00 P.M. (IST), after which remote e-voting will be blocked by CDSL. Members, who cast their votes by remote evoting, may attend the AGM but will not be entitled to cast their votes again. Shareholders who have acquired shares and become member of the Company after the

dispatch of notice may obtain the login ID and password by sending an e-mail to Central Depository Services Limited (CDSL) at helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact Mr. Rakesh Dalvi (022-23058542). Above mentioned person can also be contacted to address the grievances connected with facility for e-voting and attending the AGM through VC/OAVM.

Pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013, Rule 10 of the Companies (Management & Administration) Rules, 2014 and Regulation 42 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Register of the Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Thursday, the 23rd September, 2021 to Wednesday, 29th September, 2021 (both days inclusive) for the purpose of taking record of the shareholders at the Annual General Meeting. The Notice of AGM along with the detailed instructions for e-voting and joining the AGM

through VC/OAVM and Annual Report for the Financial Year 2020-21 is also available on the website of the Company at www.optiemus.com and on the websites of the stock exchanges i.e. www.bseindia.com and www.nseindia.com and at CDSL's website at www.evotingindia.com. By order of the Board

Date: September 03, 2021 Place: Noida (U.P.)

Vikas Chandra Company Secretary & Compliance Officer

For Optiemus Infracom Limited



पंजीकृत कार्यालय : इंजीनियर्स इंडिया भवन, 1 भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली-110066 मारत Regd.Office: Engineers India House, 1, Bhikaji Cama Place, New Delhi - 110066 ई—मेल / e-mail: company.secretary@eil.co.in. दरभाष / Phone: 011-26762855/2580 कंपनी सचिवालय / COMPANY SECRETARIAT

NOTICE

NOTICE OF THE 56™ ANNUAL GENERAL MEETING INFORMATION ON E-VOTING/RECORD DATE

The 56" Annual General Meeting ("AGM") of the Company will be held through Video Conferencing ("VC") / Other Audio-Visual Means ("OAVM") on Wednesday, September 29, 2021 at 03:00 p.m. IST, in compliance with all the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the Rules made thereunder and the Securities and Exchange Board of India ("SEBI") (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Circular No.14/2020 dated April 08, 2020, Circular No.17/2020 dated April 13, 2020, Circular No. 20/2020 dated May 05, 2020 & Circular No. 02/2021 dated January 13, 2021 issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) and SEBI Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated May 12, 2020 & SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated January 15, 2021(Collectively called "relevant circulars") to transact the business set out in the Notice calling the 56" AGM. Members will be able to attend the AGM through VC / OAVM facility. Members participating through the VC / OAVM facility shall be reckoned for the purpose of quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013.

In compliance with the relevant circulars, the Notice of the AGM and the standalone and consolidated financial statements for the financial year 2020-21, along with Directors' Report, Auditors' Report and other documents required to be attached thereto, have been sent on September 3, 2021 to the Members of the Company whose email addresses are registered with the Company / Depository Participant(s). The aforesaid documents are also available on the Company's website at www.engineersindia.com and on the website of the Stock Exchanges, i.e., BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com, respectively. The Notice of the AGM is available on the website of National Securities Depository Limited(NSDL) (agency for providing the remote e-Voting and e-voting facility during the AGM) i.e. www.evoting.nsdl.com. The documents referred to in the Notice of the AGM are available on the website of the Company for inspection.

Instruction for remote e-voting and e-voting during AGM: The Company is providing to its members facility to exercise their right to

vote on resolutions proposed to be passed at AGM by electronic means ("e-voting"). Members may cast their votes remotely, using the electronic voting system on the dates mentioned herein below ("remote e-voting"). Further, the facility for electronic voting through electronic voting system will also be made available during the AGM and members attending the AGM who have not cast their vote(s) by remote e-voting will be able to vote electronically during the AGM.

The Company has engaged the services of NSDL as the agency to provide e-voting facility. Information and instructions relating to e-voting have been sent to the

members through e-mail. The login credentials of remote e-voting should be used for attending the AGM through VC / OAVM. The manner of remote e-voting and electronic voting during the AGM by members holding shares in dematerialized mode, physical mode and for members who have not registered their email addresses is provided in the Notice of the AGM.

The remote e-voting facility will be available during the following voting

Commencement of remote e-voting:	9.30 a.m. on Sunday, September 26, 2021			
End of remote e-voting:	5.00 p.m. on Tuesday, September 28, 2021			
The remote e-voting will not be allowed	beyond the aforesaid date an			

time and the remote e-voting module shall be forthwith disabled after expiry of the aforesaid period.

A person, whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date, i.e., Wednesday, September 22, 2021 only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting or for participation at the AGM and electronic voting during the AGM.

Manner of registering / updating email addresses is as below:

Members holding shares in physical mode, who have not registered updated their email addresses with the Company, are requested to approach Registrar and Share Transfer Agent (RTA) of the Company M/s Alankit Assignments Limited having office at 205-208, Anarkali Complex, Jhandewalan Extension, New Delhi-110055 or send email at virenders@alankit.com.

Members holding shares in dematerialized mode, who have not registered / updated their email addresses with their Depository Participants, are requested to register / update their email addresses with the Depository Participants with whom they maintain their demat

Any person, who becomes a member of the Company after dispatch of the Notice of the AGM or any member whose email id is not registered and holding shares as on the cut-off date may obtain the login credentials, by sending a request to RTA of the Company at virenders@alankit.com or to NSDL at evoting@nsdl.co.in, in the manner as provided in the Notice of the AGM, which is available on Company's website and NSDL's website. After due verification, RTA/NSDL will forward their login credentials to their email address.

Such members may cast their votes using the e-voting instructions, in the manner specified by the Company in the Notice of AGM.

The members who have cast their vote(s) by remote e-voting may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote(s) again at the AGM.

September 07, 2021 as the Record Date for the purpose of ascertaining the entitlement of final dividend (of ₹0.60/- per equity share) for the financial year ended 31" March, 2021, if declared by members at their 56" AGM. If you have any queries or issues regarding attending AGM & e-

The Shareholders may also note that Company has fixed Tuesday,

Voting from the e-Voting System, you may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at www.evoting.nsdl.com, under download section or write an email to Ms. Soni Singh at evoting@nsdl.co.in. Investors may also contact toll free number 18001020 990 or 1800224430. In case of any other query, you may also contact us as per the details below:

Engineers India Limited S.K. Padhi-Company Secretary

Engineers India Bhawan 1, Bhikaji Cama Place, New Delhi-110066 Tel: 011-26100258, Email: company.secretary@eil.co.in

By order of the Board of Directors Place: New Delhi S.K.Padhi Date: 03.09.2021 Company Secretary

Head Office: Mangaluru-575002 CIN : L85110KA1924PLC001128

Asset Recovery Management Branch Phone: 011-40591567, Ext.240 Mob:9319891680 E-Mail: delhiarm@ktkbank.com 8-B, First Floor, Rajendra Park, Website: www.kamatakabank.com Pusa Road, New Delhi-110060.

POSSESSION NOTICE (For Immovable Property) Whereas, undersigned being the Authorised Officer of KARNATAKA BANK LIMITED, under Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act], 2002(54 of 2002) and in exercise of powers conferred under Section 13 (12) read with [rule 3] of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued demand notice dated 10.07.2020 calling upon the borrower/ mortgagor/ guarantors: 1] Mrs. Sunita Garq, W/o Mr. Saijan Kumar, 2] Mr. Sajjan Kumar, S/o Raunak Ram, Both 1 and 2 are residing at: House No. F3/574 Sector-I, Vaishali, Ghaziabad, 3] Mrs. Pushpa Gaur, W/o Mr. Inder Raj Gaur, 5/144, DDA flats East of Kailash, Delhi, to repay the amount mentioned in the notice being Rs.32,45.657.00 (Rupees Thirty Two Lakh Forty Five Thousand Six Hundred Fifty Seven Only) under Term Loan Account No.5617001600009101 along with future interest from 10.07.2020, within 60 days from the date of receipt of the said notice.

The borrowers, mortgagors and the guarantors having failed to repay the amount, notice is nereby given to the borrowers, mortgagors, guarantors and the public in general that the indersigned has taken the Possession of the property described herein below in exercise of the powers conferred on him under Sub-Section (4) of Section 13 of Act read with Rule 8 and 9 of the Security Interest Enforcement, Rules 2002 on this the 02nd September of the year 2021. The borrowers, the mortgagors and the guarantors in particular and the public in general is

nereby cautioned not to deal with the property mentioned herein below and any dealings with he property will be subject to the charge of Karnataka Bank Limited, Ashok Vihar Branch for an amount of Rs.34,04,042.54 (Rupees Thirty Four Lakhs Four Thousand Forty Two and Fifty Four Paisa Only) under Term Loan Account No.5617001600009101 along with future nterest from 09.11.2020, Plus cost. The Borrower's attention is invited to provisions of Sub-Section (8) of Section 13 of the Act, in

respect of time available to redeem the secured assets.) DESCRIPTION OF THE IMMOVABLE PROPERTY All the part and parcel of residential property bearing No. E-120, area measuring 100 sq.

yds (Approx) out of Khasra No.659, with roof rights situated at Bindaur Village, Chanakya Palace, Part- I, Block- E, New Delhi-110059, belonging to Mrs. Sunita Garg. Bounded by: East: Others Property, West: Portion of Plot, North: 10 ft wide Lane, South: 5 ft wide For Karnataka Bank Ltd Chief Manager & Authorised Officer Date: 02.09.2021



Ph.: 0121-2648151-52, 2651801 Fax-2651803,

e-mail: dhanvantrihospital@gmail.com; website: www.djrl.org.in, NOTICE

Members are hereby informed that the 28" Annual General Meeting ('AGM') of the Company will be held on Thursday, 30th September, 2021at 05:00 P.M. (IST) through Video Conferencing/ Other Audio Visual Means ('VC/ OAVM'), in conformity with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 ('the Act') and the Rules made thereunder read with the Circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs, Government of India and Securities and Exchange Board of India (SEBI), to transact the business that will be set forth in the Notice of the Meeting.

The Notice of the 28"AGM along with the Annual Report for the Financial Year 2020-21, in conformity with the applicable regulatory requirements, will be sent through electronic mode on or after 5th September, 2021 to those Members whose e-mail addresses are registered with the Company or with the Depositories. The said AGM Notice and Annual Report for the Financial Year 2020-21 will also be available on the Company's website (www.djrl.org.in) and on the website of BSE Limited (www.bseindia.com), where the Company's shares are listed. In terms of Section 108 of the Act read with Rule 20 of the Companies

(Management and Administration) Rules, 2014, the Resolutions for Consideration at the 28"AGM will be transacted through remote e-voting (facility to caste vote prior to the AGM) and also e-voting during the AGM, for the purpose of which the services of Central Depository Service (India) Limited ('CDSL') have been engaged by the Company. Shareholders holding share(s) in dematerialized form are requested to register/

update their e-mail addresses and mobile numbers with the relevant Depositories. Shareholders holding share(s) in physical form are requested to furnish their email addresses and mobile numbers with the Company's Registrar and Share Transfer Agent (Beetal Financial and Computer Services Private Limited) by sending email at investor@beetalfinancial.com By order of the Board of Directors

(Dr. V.S. Phull) DIN: 00617947 Place: Meerut Managing Director Date: 04.09.2021

For Dhanvantri Jeevan Rekha Limited

NORTHERN RAILWAY Invitation of Tenders through E-Procurement system

Principal Chief Materials Manager, Northern Railway, New Delhi-110001, for and

on behalf of the President of India, invites e-tenders through e-procurement system for supply of the following items:-

S. NO	Tender No.	Brief Description	Qty.	Closing Date	
01	19210754A	SET OF LOCK ASSEMBLY	53 NOS.	28-09-21	
02	07213460	SECONDARY LATERAL DAMPER FOR LHB COACHES.	1370 NOS.	30-09-21	
03	19210964	END FRAME (NON DRAVING END ASSLY)	105 NOS.	30-09-21	
04	08215181	POLYTHENE INSULATED POLYTHENE SHEATHED JELLY FILLED TELEPHONE CABLE			
05	08215108	POLYTHENE INSULATED POLYTHENE SHEATHED JELLY FILLED TELEPHONE CABLE	21 KM	01-10-21	
06	12195080C	PROCUREMENT OF PASSENGER ESCALATOR	ASSENGER 64 NOS.		
07	19212434	1-1/4 INCH X 26 INCH HOSE COUPLING FOR BRAKE PIPE	3858 NOS.	06-10-21	
80	09212594A	10 INCH BRAKE CYLINDER WITH BUILT IN SLACK ADJUSTER	132 NOS.	08-10-21	
09	08210009	1.QNA1 RELAY DC MINIATURE 12F/4B	2453 NOS.	11-10-21	
10	01211145	NON ASBESTOS K-TYPE HIGH FRICTION	89691 NOS.	18-10-21	
11	09212486	SLIDE BLOCK ALONG WITH DULY WELDED LINER	1091 NOS.	29-10-21	
12	07210249	RUBBER SPRING FOR FIAT BOGIE.	1350 NOS.	01-11-21	
13	09212593	SPARES OF APM (EL-60)	600 SET	03-11-21	
14	09212482	POH KIT FOR C3 W2 DISTRIBUTOR VALVE	560 SET	05-11-21	
15	09212569	TOP HOUSING	2000 NOS.	30-11-21	
16	09213039	KIT OF PU PAINTS (TWO PACK) FOR ICF COACHES.	204 SET	30-11-21	

NOTE -1. Vendors may visit the IREPS website i.e. www.ireps.gov.in for details.

2. No Manual offer will be entertained. Tender Notice NO. 39/2021-2022 Dated: 03.09.2021

SERVING CUSTOMERS WITH A SMILE

SALORA

SALORA INTERNATIONAL LIMITED Regd. Office: D-13/4, Okhla Industrial Area, Phase-II, New Delhi-110020

CIN - L74899DL1968PLC004962, Website: www.salora.com, Email: sect@salora.com,

Telephone: 011-40115817

52nd ANNUAL GENERAL MEETING OF SALORA INTERNATIONAL LIMITED

Members are requested to note that the 52rd Annual General Meeting ("AGM") of Salora International Limited ("the Company") will be held on Wednesday, September 29th, 2021 at 11:00 A.M. through videoconferencing ("VC") to transact the business to be set out in the Notice of the 52rd AGM, in compliance with all the applicable provisions of the Companies Act, 2013 ("Act") and the Rules made thereunder and the Securities and Exchange Board of India ("SEBI") (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, (SEBI Listing Regulations) and MCA Circular dated 13" January, 2021 read with circulars 08" April, 2020, 13th April, 2020, 05th May, 2020 and other applicable circulars issued by the SEBI and MCA in this regard (Collectively referred as "Circulars"). The deemed venue for the 52" AGM will be the registered office of the

Electronic copies of the Notice of the 52" AGM, procedure and instruction for e-voting and Annual Report 2020-21 will be sent to those members whose email IDs are registered with the RTA/ Company/Depositories.

Members who have not registered their email address are requested to register the same in respect of share held in electronic form with the Depository through Depository Participant(s) and in respect of shares held in physical form by sending e-mail /writing to the Company's Registrar and Transfer Agents ("RTA"), Skyline Financial Services Private Limited, D-153-A, 1" Floor, Okhla Industrial Area, Phase-I, New Delhi-110020.

company.

Date: September 03, 2021

Place: New Delhi

The notice of 52" AGM and Annual Report 2020-21 will be made available on the website of the Company at www.salora.com and at the BSE website The Company will provide the facility to it's members to exercise their right

to vote by electronic means both through remote e-voting and e-voting at AGM. The instruction on the process of e-voting, including the manner in which the members holding share in physical form or who have not registered their email address can cast their vote through e-voting will be provided as part of the Notice of the 52rd AGM.

Members are requested to carefully read all the Notes set out in the Notice of the AGM and in particular, instructions for joining the AGM, manner of casting vote through remote e-voting and e-voting at the time of AGM.

For Salora International Ltd.

(Anubhav Nigam) Company Secretary & **Compliance Officer** Mem. No. A59262

CRANEX LIMITED CIN: L74899DL1973PLC006503

Registered Office: 9, DDA Market, Katwaria Sarai, New Delhi-110016 Corporate Office: 57/1, Industrial Area, Site-IV, Sahibabad (U.P.)-201010 E mail: investors@cranexltd.com, Website: http://www.cranexltd.com BSE Script Code: 522001 ISIN: INE608B01010

NOTICE is hereby given that the 46th Annual General Meeting (the 'AGM') of the Members of the Company will be held on Tuesday, the 28th day of September, 2021 at 03.00 P.M. through Video Conferencing ("VC")/Other Audio Visual Means ("OAVM") facility in accordance with the provisions o the companies Act, 2013 and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements Regulations, 2015 read with the relevant circulars of the Ministry of Corporate Affairs and the Securities and Exchange Board of India. The copy of 46th Annual Report and notice is being emailed to all the Shareholders of the Company whose email ids are registered with the company RTA. The same is also available on website of company i.e. http://www.cranexitd.com

Pursuant to Regulations of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we further wish to inform you that; The Company has fixed Tuesday, 21st September, 2021 as the "CUT-OFF DATE" fo

- determining the eligibility of the members to vote by electronic means or at the Annua Pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 and Regulation 42 of the SEBI (Listing
- Obligations and Disclosure Requirements) Regulation, 2015, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Wednesday, 22nd September 2021 to, Tuesday, 28th September, 2021 (both days inclusive) for the purpose of Annual General Meeting E-voting details mentioned below:

Commencement of e-voting From 9.00 a.m. (IST) on Saturday, 25th September, 2021 End of e-voting Up-to 5.00 p.m. (IST) on Monday, 27th September, 2021 The Board has appointed Mr. Parveen Kumar Rastogi, Practicing Company Secretary (COF

No. 2883), as the Scrutinizer to scrutinize the e-voting in a fair and transparent manner By Order of the Board

For Cranex Limited Shubham Kapil Place: Ghaziabad Date: 03.09.2021 Company Secretary & Compliance Officer

HUMMING BIRD EDUCATION LIMITED

CIN: L80221DL2010PLC207436 Regd. Off: 1374-1375, Katra Lehswan, Chandni Chowk, New Delhi-110006 Email Id: hummingbirdeducation@gmail.com

Website: www.hummingbirdeducation.com INFORMATION TO THE SHAREHOLDERS ON THE 11TH (TENTH) ANNUAL GENERAL MEETING THROUGH VIDEO CONFERENCING (VC) / OTHER AUDIO

VISUAL MEANS (OAVM), REMOTE E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE NOTICE is hereby given that the 11th (Tenth) Annual General Meeting ("AGM") of the

Shareholders of Humming Bird Education Limited ("the Company") will be held on Thursday, September 30, 2021 at 1.30 p.m. (IST) through Video Conference ("VC") Other Audio Visual Means ("OAVM") to transact the business, as set out in the Notice of the AGM which will be e-mailed to the Shareholders separately and also will be made available on the website of the Company, viz., www.hummingbirdeducation.com and on the websites of the Stock Exchanges where the Equity Shares of the Company are listed, i.e., BSE Limited (at www.bseindia.com) and on the website of Central Depository Services (India) Limited (CDSL) (at www.evotingindia.com). In view of the outbreak of the COVID-19 pandemic, the Ministry of Corporate Affairs ("MCA"), vide its General Circular No. 14/2020 dated April 8, 2020, Circular No. 17/2020 dated April 13, 2020, Circular No. 20/2020 dated May 5, 2020 and Circular No. 02/2021 dated January 13, 2021 issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA Circulars"), permitted the holding of AGM through VC or OAVM, without the physical presence of the Shareholders at a common venue. In compliance with the provisions of the Companies Act, 2013 ("the Act"), the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI Listing Regulations") and MCA Circulars, the AGM of the Company will be held through VC / OAVM. Electronic Copies of Notice of AGM and Annual Report for the Financial Year 2020-

In compliance with the provisions of the Act, the Rules framed thereunder, MCA Circulars

and SEBI Circulars, electronic copies of the Notice of the AGM and the Annual Report for the Financial Year 2020-21 will be sent to all the Shareholders whose e-mail addresses are registered with the Company / Depository Participant(s). Shareholders may note that the Notice of the AGM and Annual Report 2020-21 will also be available on the Company's website at www. hummingbirdeducation.com, on the websites of the Stock Exchanges where the Equity Shares of the Company are listed, i.e., BSE Limited (at www.bseindia.com) and on the website of Central Depository Services (India) Limited (CDSL) (at www.evotingindia.com)

Participation in AGM through VC / OAVM: Shareholders can attend and participate in the AGM through the VC / OAVM facility only

[which is being availed by the Company from Central Depository Services (India) Limited (CDSL)], the details of which will be provided by the Company in the Notice of the AGM. Shareholders attending through VC / OVAM shall be counted for the purpose of the quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013. Manner of registering/updating their E-mail ID: Shareholders who have still not registered their e-mail ID are requested to get their e-mail ID registered, as follows:

physical mode and who have not updated their email address are requested to update their email address by writing to the Registrar and Share Transfer Agent of the Company, viz., Bigshare Services Private Limited ("Bigshare") at investor.del@bigshareonline.com, along with the copy of the signed request letter mentioning the name and address of the Shareholder, scanned copy of the Share Certificate (front and back), self-attested copy of the PAN Card, and self-attested copy of any document (eg.: Driving License, Election Identity Card, Passport) in support of the address of the Shareholder. Shareholders holding Shares in Dematerialized Mode: Shareholders are requested

to register their e-mail ID with the relevant Depository Participant(s). In case of any queries / difficulties in registering the e-mail address, Shareholders may

write to Bigshare at investor.del@bigshareonline.com.

facility at the AGM to its members to exercise their right to vote on all the resolutions proposed to be transacted at the AGM by electronic means and the facility being provided by Central Depository Services (India) Limited (CDSL) (at www.evotingindia.com). The members who will be casting their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend/participate in the AGM through VC/OAVM but shall not be entitled to cast their vote again. Detailed process and manner or remote e-voting, e-voting at the AGM and instructions for attending the AGM through VC/OAVM is being provided in the Notice of

The remote e-voting window will open at 9:00 A.M. on 27" September, 2021 and closed at 5:00 P.M. on 29th September, 2021. Members holding shares as 23th September, 2021. (Record Date/Cut-Off Date) may cast their vote through e-voting facility.

of members and share transfer register of the Company will remain closed from Friday, 24" September, 2021 to 30" September, 2021 (both days inclusive) for the purpose of 11 Annual General Meeting.

For Humming Bird Education Limited

Mayank Pratap Singh Company Secretary Place: New Delhi



1985/2021

Jaipur-302019 Rajasthan, Phone: +91-9929988801 Email: mlp@mayurleather.com Website: www.mayurleather.com

NOTICE OF 36TH ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that

circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs and Securities and Exchange Board of India, the 36th Annual General Meeting (AGM) of Mayur Leather Products Limited (the Company) will be held through video conferencing (VC) or other audio-visual means (OAVM) on Tuesday, the September 28, 2021 at 2.00 pm without the physical presence of the members at common venue to transact the ordinary and special businesses as set out in the Notice dated August 13, 2021 convening the AGM The Company has completed the dispatch of Notice of AGM through e-mail to the

shareholders whose email ids are registered with the Company/Registrar and Share Transfer Agent/Depository Participant. Those shareholders whose email ids are not at cs@mayurleather.com. The Annual Report 2020-21 (including the Notice of AGM) is also available on the Company's website i.e. www.mayurleather.com, website of the respective Services (India) Limited (CDSL) i.e. www.cdslindia.com.

Listing Regulations and Secretarial Standard on General Meetings (SS-2) issued by the Institute of Company Secretaries of India, the Company is pleased to offer to its members the facility of "remote e-voting" provided by CDSL to enable them to cast their vote by electronic means on the resolutions as set out in the said Notice. The members may please Note that:

electronic means only (remote e-voting or e-voting at the AGM); b. the date and time of commencement of remote e-voting: Saturday, September 25, 2021 at 9.00 am;

 the date and time of end of remote e-voting: Monday, September 27, 2021 at 5.00 pm 27, 2021 and the remote e-voting shall not be allowed beyond such time: the AGM: Tuesday, September 21, 2021;

e, any person, who acquires shares of the Company and becomes member of the Company after dispatch of the Notice of AGM and holds shares as on the cut-off date, may obtain the login ID and password by sending request at helpdesk.evoting@cdslindia.com. However, if any person is already registered with CDSL for e-voting then existing user ID and password can be used for casting vote;

members who cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM through VC/OAVM but shall not be eligible to cast their vote again; (iv) a person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date only shall be entitled to avail facility of e-voting (either remote or at AGM); and g. For the process and manner of remote e-voting and e-voting at AGM, members may go

through the instructions in the Notice convening the AGM and in case of any queries or issues regarding e-voting, members may refer the Frequently Asked Questions ('FAQs' and e-voting manual available at www.evotingindia.com under help section or send ar email to helpdesk.evoting@cdsl.com or contact Mr. Rakesh Dalvi, Sr. Manager, CDSL (022-23058542/43) or contact the Company at cs@mayurleather.com. 3) Members who are holding shares in physical and whose email addresses are not registered with the Company may obtain the login credential from Registrar and Share

Transfer Agent, viz. Link Intime India Private Limited and can cast their vote through remote e-voting or through the e-voting at the AGM. Members are advised to register/update their e-mail address with their DP in case of shares

form to receive all communications, including Annual Report, Notices, Circulars etc. by email from the Company in future. For Mayur Leather Products Limited Place: Jaipur

New Delhi

DELPHI WORLD MONEY LIMITED

(ERSTWHILE EBIXCASH WORLD MONEY INDIA LIMITED) CIN: L65990MH1985PLC037697 Regd. Office: 8th Floor, Manek Plaza, Kalina CST Road, Vidya Nagri Marg, Kalina, Santacruz (East), Mumbai-400098 Tel: +91-22-62881500, Email: corp.relations⊕ebixcash.com, Website: www.indiaforexonline.com

NOTICE FOR THE ATTENTION OF SHAREHOLDERS OF THE COMPANY

The 36" (Thirty Sixth) Annual General Meeting ('AGM or Meeting') of the Members of

Delphi World Money Limited will be held on Monday, September 27, 2021 at 1:30 P.M. IST through Video conferencing (VC) / Other Audio Visual Means (OAVM) in compliance with all the applicable provisions of Companies Act, 2013 and the Rules made thereunder and the Securities and Exchange Board of India (SEBI) (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with the General Circular No. 14/2020 dated April 08, 2020, General Circular No. 17/2020 dated April 13, 2020, General Circular No. 20/2020 dated May 5, 2020 and General Circular No. 02/2021 dated January 13, 2021 and other applicable circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) and SEBI (collectively referred to as "relevant circulars") to transact the business set out in the Notice calling the AGM. Members will be able to attend the AGM through VC/OAVM. In compliance with the relevant circulars, the Notice of the AGM and the Financial

Statements for the Financial Year 2020-21 along with the Board's Report, Auditor's

Report and other documents required to be attached thereto have been sent on September 02, 2021 to the Members of the Company whose email addresses are registered with the Company/ Depository Participant(s). The aforesaid documents are also available on Company's website at www.indiaforexonline.com and on the website of Stock Exchange i.e. www.bseindia.com and www.nseindia.com A copy of the same shall also be available on the website of National Securities Depository Limited (NSDL) at As per section 108 of Companies Act, 2013 read with the Rule 20 of the Companies

(Management and Administration) Rules, 2014 as amended from time to time and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company is pleased to provide its Members the facility to exercise their right to vote on resolutions proposed to be passed at AGM by electronic means (e-voting). The Company has engaged the services of National Securities Depository Limited (NSDL) to provide the e-voting facility to shareholders. Members may cast their votes remotely using the electronic voting system of NSDL on the dates mentioned here below (remote e-voting) Further the facility for voting through electronic voting system will also be made available

at the AGM and Members attending the AGM who have not cast their votes by remote e-

voting will be able to vote at the AGM. National Securities Depository Limited (NSDL) will

be providing facility for voting through remote e-voting, for participation in the 36" Annual General Meeting through VC/OAVM and e-Voting during the AGM. The Register of Member and Share Transfer Books of the Company shall be closed from Tuesday September 21, 2021 to Monday, September 27, 2021 (both days

inclusive) for the purpose of AGM All Members are informed that: The Business as set-forth in the Notice of AGM may be transacted through voting

- The date and time of commencement of remote e-voting: Friday, September 24,
- The date and time of end of remote e-voting: Sunday, September 26, 2021, 5:00
- The cut-off date for determining the eligibility to vote by electronic means or at the AGM: Monday, September 20, 2021. The voting rights of the Members shall be in proportion to their shareholding as on the cut-off date; Any person, who acquires shares of the Company and become member of the
- Company after dispatch of the notice of AGM and hold shares as of the cut-off date i.e. Monday, September 20, 2021, can follow the process for generating the Login ID and password as provided in the Notice of the AGM. If such a person is already registered with NSDL for e-voting, existing User ID and Password can be used for
- The Members may note:-
 - Remote e-voting shall not be allowed beyond September 26, 2021-5:00 P.M. The facility for voting shall be made available at the AGM and the members attending the meeting who have not cast their votes by remote e-voting shall be able to exercise their right at the Meeting.
 - (iii) A Member may participate in the General Meeting even after exercising his right to vote through remote e-voting but shall not be allowed to vote again A person whose name is recorded in the register of members or in the

Register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-

off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as

voting in the Annual General Meeting. Website address of the Company and of the Agency where Notice of the Meeting is displayed www.indiaforexonline.com and www.evoting.nsdl.com

Name, designation, address, Email id and phone number of the person responsible to address the grievances connected with the facility for voting by electronic

Ms. Purnima Nijhawan, Company Secretary, Email id: corp.relations@ebixcash.com. Contact details +91-22-62881500, Address: 8" Floor, Manek Plaza, Kalina CST Road, Vidya Nagri Marg, Kalina, Santacruz (East), Mumbai 400 098.

> **PURNIMA NIJHAWAN** COMPANY SECRETARY M. NO: A32151

BY ORDER OF BOARD OF DIRECTORS

PLACE : MUMBAI

EKAM LEASING AND FINANCE CO. LIMITED Regd. Office: No. 11, Rani Jhansi Road, (Motia Khan), M.M. Road New Delhi 110055 CIN:L74899DL1993PLC055697

Email: info@ekamleasing.com, ekam.leasing1@cpil.com Website: www.ekamleasing.com INFORMATION REGARDING NOTICE OF 28TH ANNUAL GENERAL MEETING,

BOOK CLOSURE AND REMOTE E-VOTING The notice is hereby given that:

DATE: 03.09.2021

- The 28th Annual General Meeting (AGM) of the Members of M/s EKAM LEASING AND FINANCE CO. LIMITED ("the Company") will be held on Monday, 27st September, 2021 at 12:00 P.M. (IST) via Video Conferencing("VC") facility/Other Audio Visual Means("OAVM") ONLY to transact the Ordinary and Special Business. as set forth in the Notice of AGM.
- In accordance with the General Circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs dated 8th April, 2020, 13th April, 2020, 5th May, 2020 and 13th January, 2021 (collectively referred to as 'MCA Circulars') and the Securities and Exchange Board of India ("SEBI Circular") dated 12th May, 2020 and 15th January, 2021, Since the AGM is being conducted through VC/OAVM, the Company has sent the Notice of the 28th AGM along with the link to the Integrated Annual Report for the F.Y 2020-21 on Thursday, 02th September, 2021 through electronic mode only, to those Members whose e-mail addresses are registered with the Company or Registrar and Share Transfer Agent/Depositories. The requirement of sending physical copies of the Notice of the AGM has been dispensed with vide MCA Circulars and SEBI Circulars.
- Additionally, the Integrated Annual Report of the Company for the Financial Year 2020-21, inter-alia containing the Notice and Explanatory Statement of the 28th AGM is available on the website of the Company at www.ekamleasing.com and also the website of the Bombay Stock Exchange on which the shares of the Company are listed i.e www.bseindia.com. A copy of the same is also available on the website of National Securities Depository Limited ('NSDL') at www.evoting.nsdl.com.
- 4. In Compliance with Section 108 of the Companies Act 2013 read with Rule 20 of Companies (Management and Administration) Rules 2014 as amended from time to time, Secretarial Standard-2 issued by the Institute of Companies Secretaries of India on General Meeting and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company is providing "remote e-voting" and "evoting" facility to its Members before and during the AGM in respect of the Ordinary Business and Special Business as set forth in the Notice of AGM through electronic voting system of National Securities Depository Limited (NSDL). All the members are
- The instruction for participating through VC/OAVM and process of remote e-voting before or during the AGM including the manner in which Members holding shares in
- physical form or who have not registered their e-mail address can cast their vote through e-voting, are provided as part of Notice of the 28^h AGM. ii. The remote e-voting shall commence on Friday, September 24, 2021 at 9:00 am
- iii. The remote e-voting shall end on Sunday, September 26, 2021 at 5:00 pm IST.
- iv. The cut-off date for determining the eligibility to vote by electronic means or at the AGM is September 20, 2021. v. Any person, who acquires shares of the Company and become member of the
- Company after dispatch of the Notice of AGM and holding shares as of cut-off date i.e. September 20, 2021, may obtain the login ID and password by sending a request at evoting@nsdl.co.in. However, if a person is already registered with NSDL for e-voting then existing user ID and password can be used for casting vote. A person who is not a Member as on the Cut-off date should treat the Notice of AGM for information purpose only. vi. Members may note that: a) the remote e-voting module shall be disabled by NSDL after the aforesaid date and time for voting and once the vote on a resolution is cast

by the member, the member shall not be allowed to change it subsequently; b) the

facility of e-voting system shall also be made available during the AGM; c) the

their Depository participant(s) and in respect of shares held in physical form by

writing to the Company's RTA i.e M/s Alankit Assignments Limited, Jhandewalan,

- members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again in the AGM; and d) a person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositors as on the cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting before/ during the AGM. vii. Members who have not registered their e-mail address are requested to register the same in respect of the shares held in electronic form with the Depository through
- New Delhi-110055 at rta@alankit.com and; viii. In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") for Shareholders and e-voting user manual for Shareholder available at the Downloads section of https://www.evoting.nsdl.com or contact NSDL by email at evoting@nsdl.co.in. In case of any clarification(s)/grievance(s) connected with the electronic voting, you may contact Mr. Aman Goyal, Assitant Manager, NSDL at the designated email IDs: evoting@nsdl.co.in or amang@nsdl.co.in or at following Telephone Nos.: 9052300465. Member who require any technical assistant before/during the AGM to access and participate in the meeting may contact Mr. Aman Goyal, Assitant Manager, NSDL at amang@nsdl.co.in or at following
- 5. Further the board of Directors of the Company has appointed Mr. Krishna Kumar Singh proprietor of M/s KKS & Associates, Company Secretaries for scrutinizing the remote e-voting process as well as voting during the AGM in fair and Transparent Manner. The result of remote e-voting and voting during the AGM shall be declared not later than 48 hours from the conclusion of the AGM. The declared results along with Scrutinizer's Report shall be place on the website of the Company at www.ekamleasing.com and also the website of the Bombay Stock Exchange on which the shares of the Company are listed i.e www.bseindia.com
- 6. Details regarding Book Closure

Place: DELHI

Date: 03.09.2021

Telephone Nos.: 9052300465.

Pursuant to Section 91 of the Act and Regulation 42 of the SEBI Regulations, the Register of Members and the Share Transfer books of the Company will remain closed from Tuesday, September 21, 2021 to Monday, September 27, 2021 (both days inclusive) for the purpose of 28th AGM for the F.Y 2020-21.

Members are requested to carefully read all the Notes set out in the Notice of the AGM and in particular, instructions for joining AGM, manner of casting vote through remote evoting or voting at the AGM. By order of the Board EKAM LEASING & FINANCE CO. LIMITED

(RAKESH JAIN) CHAIRMAN CUM MANAGING DIRECTOR DIN-00061737

financialexp.epapr.in

Karnataka Bank Ltd.

Shareholders holding Shares in Physical Mode: Shareholders holding shares in

Manner of Voting on Resolutions placed before the AGM: The Company is providing the remote e-voting facility before the AGM and e-voting

Further, pursuant to the provisions of Section 91 of the Companies Act, 2013, the register

Date: 03.09.2021

MAYUR LEATHER PRODUCTS LIMITED

CIN: L19129RJ1987PLC003889 Regd. Office: B-5, Vrindavan Apartments, Vrindavan Vihar, King's Road,

(1) In compliance with the provisions of the Companies Act, 2013 and the applicable

updated with the Company/RTA/DP may seek soft copy of the Notice of AGM and Annual Report of the Company for the financial year 2020-21 by making a request to the Company Stock Exchange viz. BSE Limited at www.bseindia.com and website of Central Depository (2) In terms of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended and Regulation 44 of the

a. the businesses as set out in the Notice of AGM may be transacted through voting by

The remote e-voting module shall be disabled by CDSL at 5.00 pm on Monday, September d. the cut-off date for determining the eligibility to vote through remote e-voting or e-voting at

f. Members may also note that: (i) members attending the AGM through VC/OAVM may cast their vote through e-voting available at the time of AGM; (ii) once the vote on a resolution is cast by the member, the member shall not be allowed to change it subsequently; (iii) the

held in electronic form and to the Company and/or its RTA in case of shares held in physical

Sd/- Company Secretary Dated: September 2, 2021

प्रोग्नेसिव फिनलीज लिमिटेड

सीआईएन : L65910DL1985PLC0064310 पंजीकृत कार्यालय : 500, 5वाँ तल, आईटीएल दिवन टॉवर, नेताजी सुभाष प्लेस, पीतमपुरा, दिल्ली, उत्तरी दिल्ली, दिल्ली-110034 भारत ई-मेल आईडी : info@progressivefinlease.in 27वीं एजीएम, ई-वोटिंग तथा बुक क्लोजर की सूचना

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि एजीएम की सूचना में निर्धारित प्रकार्य के लेन-देन के लिए प्रोग्रेसिव फिनलीज लिमिटेड के सदस्यों की 27वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) सोमवार, 27 सितम्बर, 2021 को ४.०० बजे अप. (भा.मा.स.) ३६७, कोहाट एन्कलेव, पीतमपुरा, दिल्ली-1100३४ पर आयोजित की जायेगी। कम्पनी 27वीं एजीएम की सूचना तथा वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 उन सदस्यों के पास इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेज दी है जिनके ई-मेल पते कम्पनी या रजिस्ट्रार एवं शेयर अन्तरण एजेंट तथा डिपॉजिटरी के साथ पंजीकृत हैं। एमसीए परिपत्रों तथा सेबी परिपत्र के माध्यम से एजीएम की सचन की भौतिक प्रतियां भेजने की आवश्यकता समाप्त कर दी गयी है। अन्य बातों के साथ-साथ कम्पनी की वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 और 27वीं एजीएम के व्याख्यात्मक विवरण तथा सुचना स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पर उपलब्ध है। इसकी एक प्रति नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड 'एनएसडीएल') की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध है।

कम्पनी अधिनियम, 2013 तथा प्रासंगिक नियमों एवं अन्य प्रयोज्य प्रावधानों के साथ पठित धारा 108 के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुपालन में कम्पनी एनएसडीएल के माध्यम से एजीएम में लेन-देन किये जाने वाले प्रकार्य के परिप्रेक्ष्य में रिमोट ई-वोटिंग तथा एजीएम के दौरान मतदान की सुविधा उपलब्ध करा रही है, विस्तृत निर्देश एजीएम की सूचना में दिये गये हैं। रिमोट ई-वोटिंग 24 सितम्बर, 2021 को 9 बजे प्रातः प्रारम्भ होगी और 26 सितम्बर, 2021 को 5 बजे अप. समाप्त होगी। इसके पश्चात मतदान हेत् रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल एनएसडीएल द्वारा निष्क्रिय कर दिया जायेगा तथा कथित तिथि एवं समय के उपरान्त सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से मतदान करने की अनुमति नहीं होगी। सदस्ये के मताधिकार 20 सितम्बर, 2021 ('कट-ऑफ तिथि') तक कम्पनी की प्रदत्त इक्विटी शेयर पुँजी के उनके शेयरों के अनुपात में होंगे। कोई व्यक्ति जो शेयर अर्जित करता है और सूचना भेजे जाने के उपरान्त सदस्य बन जाता है तथा कट-ऑफ तिथि तक शेयर धारण करता है, वह evoting@nsdl.com पर निवेदन भेजकर अथवा एनएलडीएल द्वारा प्रावधानित टोल फ्री नम्बर 1800-222-990 पर सम्पर्क करके रिमोट ई-वोटिंग हेतु लॉगिन आईडी तथा पासवर्ड प्राप्त कर सकत

रिमोट ई-वोटिंग :

एतद्वारा पुनः सुचना दी जाती है कि अधिनियम की धारा 91 तथा उसके तहत निर्मित नियमों के अनुसा 27वीं एजीएम के उद्देश्य से सदस्यों के रजिस्टर तथा कम्पनी की शेयर अन्तरण पुस्तिकाएँ 21 सितम्बर, 2021 से 27 सितम्बर, 2021 (दोनों तिथियाँ शामिल) तक बन्द रहेंगी। **ई-मेल पतों का पंजीकरण**ः

सदस्य (भौतिक तथा डीमैट धारक) जिन्होंने अपने अपने ई-मेल पते अब तक पंजीकृत नहीं कराये हैं वे कृपया एजीएम की सूचना तथा वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 की प्रतियाँ इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्राप्त करने तथा रिमोट ई-वोटिंग के लिए लॉगिन आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त करने के लिए ई-मेल पतों तथा पैन की स्कैन्ड प्रति सहित कम्पनी के पास info@progressivefinlease.in पर निवेदन भेजें। बोर्ड के आदेशानुसार

तिथि : 03.09.2021 स्थान : दिल्ली

रेनू मलिक कम्पनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

युएसएस ग्लोबल लिमिटेड (पूर्व का सुरनिधि इन्वेस्टमेंट लिमिटेड)

सीआईएन: L74900DL1993PLC056491 पंजीकृत कार्यालयः कार्यालय सं. 400, आईटीएल ट्विन टॉवर्स, बी-9, नेताजी सुभाष प्लेस, पीतमपुरा, नई दिल्ली-110034

दरभाष : 011 -45824477, ई-मेल: surnidhiinvestmentltd@gmail.com वेबसाइटः www.ussgloballtd.com

28वीं वार्षिक आम बैठक, बुक क्लोजर तथा रिमोट ई-वोटिंग जानकारी की सूचना एतद्वारा सचना दी जाती है कि 28वीं वार्षिक आम बैठक की सचना में निर्धारित सामान्य तथ विशेष प्रकार्यों के लेन-देन के लिए यूएसएस ग्लोबल लिमिटेड (पूर्व की सुरनिधि इन्वेस्टमेंट निमटेड) के सदस्यों की (अट्ठाईसवीं) 28वीं वार्षिक आम बैठक कम्पनी के पंजीकृत परं कार्यालय सं. 400, आईटीएल ट्विन टॉवर्स, बी-9, नेताजी सुभाष प्लेस, पीतमपुरा, नई दिल्ली-|110034 पर बुधवार, 29 सितम्बर, 2021 को 3:00 बजे अप. की जानी निर्धारित है।

कम्पनी (प्रबन्धन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धार 91 एवं यथासंशोधित सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 वे विनियम 42 के अनुसार कम्पनी की 28वीं वार्षिक आम बैठक के उद्देश्य से कम्पनी के सदस्यो कि रजिस्टर तथा शेयर अन्तरण पस्तिकाएं 25 सितम्बर, 2021 से 29 सितम्बर, 2021 (दोनो तिथियाँ शामिल) बन्द रहेंगी।

28वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना के साथ वित्त वर्ष 2020-21 की 28वीं वार्षिक रिपोर्ट उन सभी सदस्यों के पास इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेजी जा चुकी हैं जिन्होंने अपने ई-मेल पते कम्पनी/डिपॉजिटरी भागीदार के साथ पंजीकृत कराये हैं और सचिवीय मानकों-2 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 के अनुसार अनुमत्य साधनों से अन्य सभी सदस्यों के पास कोरियर द्वारा उनके पंजीकृत पतों पर 3 सितम्बर, 2021 तक भेजने का कार्य समाप्त कर लिया गया है च्याख्यात्मक विवरण प्रपत्र सहित 28वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना 28वीं वार्षिक रिपोर्ट गं निहित है और कम्पनी की वेबसाइट www.ussgloballtd.com तथा सीडीएसएल की विबसाइट www.evotingindia.com पर उपलब्ध है।

पुनः कम्पनी (प्रबन्धन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 एवं यथासंशोधित सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के विनियम 44 के अनुसार कम्पनी कम्पनी 28वीं वार्षिक आम बैठक में निर्धारित किये जाने वाले तथा 28वीं एजीएम की सूचना में निर्धारित प्रकार्य के समस्त मदों (सामान्य व्यवसाय तथा विशेष व्यवसाय) के परिप्रेक्ष्य में अपने सदस्यों को रिमोट ई-वोटिंग सुविधा (अर्थात ''बैठक के स्थान को छोड़कर इलेक्ट्रॉनिक मतदान का उपयोग करते हुए अपर मताधिकार का प्रयोग करने के लिए'') उपलब्ध करा रही है। कम्पनी ने ई-वोटिंग सुविध उपलब्ध कराने के लिए एजेन्सी के रूप में सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (''सीडीएसएल'') की सेवाएं ग्रहण की हैं।

रिमोट ई–वोटिंग के विस्तृत निर्देश 28वीं एजीएम की सुचना के बिन्दु सं. 18 में दिये गये हैं रिमोट ई-वोटिंग सुविधा 26 सितम्बर, 2021 को 9.00 बजे प्रातः (भा.मा.स.) से प्रारम्भ होर्ग और 28 सितम्बर, 2021 को 5.00 बजे अप. (भा.मा.स.) पर समाप्त होगी। इसके पश्चात मतदान हेतु रिमोट ई–वोटिंग मॉड्यूल सीडीएसएल द्वारा निष्क्रिय कर दिया जायेगा। सदस्य द्वार िकसी संकल्प पर एक बार मतदान के उपरान्त बाद में सदस्यों को इसमें परिवर्तन की अनुमित नहीं दी जायेगी। सदस्यों से उपर्युक्त अन्तिम तिथि तक या इससे पूर्व अपना ई–मतदान करने क

कोई व्यक्ति जिसका नाम कट-ऑफ तिथि अर्थात 22 सितम्बर, 2021 तक सदस्यों/लाभार्थ स्वामियों के रजिस्टर में दर्ज है केवल वे ही रिमोट ई-वोटिंग तथा 28वीं वार्षिक आम बैठक में मितदान सुविधा ग्रहण करने के पात्र होंगे।

कोई व्यक्ति जो 27वीं एजीएम की सूचना भेजे जाने के उपरान्त कम्पनी का सदस्य बन जाता है और कट-ऑफ तिथि अर्थात 22 सितम्बर, 2021 तक शेयर धारण करता है वह helpdesk.evoting@cdslindia.com पर निवेदन भेजकर युजर आईडी तथा पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। यदि सदस्य ई-मतदान हेतु पहले से सीडीएसएल के साथ पंजीकृत है तो वह रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान के लिए अपने वर्तमान यूजर आईडी एवं पासवर्ड क

सिबी परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी/सीआईआर/पी/2020/242 दिनांक 9 दिसंबर 2020 के अनुसार डीमैट मोड में प्रतिभृतियों को रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों को डिपॉजिटर्र और डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ प्रबन्धित अपने डीमैट खाते के माध्यम से ईएसपी के साथ फिर से पंजीकरण किए बिना एकल लॉगिन क्रेडेंशियल द्वारा वोट करने की अनुमति है, इस प्रकार, न केवल निर्बाध प्रमाणीकरण की सविधा होती है बल्कि ई-वोटिंग प्रक्रिया में भाग लेने की आसानी और सुविधा में भी वृद्धि होती है। डीमैट मोड में प्रतिभूति रखने वाले व्यक्तिगत शियरधारकों के लिए ई-वोटिंग के लिए लॉगिन विधि बिंदु संख्या 18(iii) में ''डीमैट मोड सीडीएसएल/एनएसडीएल/डिपॉजिटरी प्रतिभागियों में प्रतिभतियों वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों के लिए ई-वोटिंग के लिए लॉगिन विधि'' दी गई है।

शियरधारकों को ई–वोटिंग सुविधा का उपयोग करने के लिए अपने डीमैट खातों में अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अपडेट करने की सलाह दी जाती है। इसके अलावा जिन शेयरधारको के ईमेल/मोबाइल नंबर कंपनी/डिपॉजिटरी में पंजीकृत नहीं हैं, उनके लिए 28वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना में प्रक्रिया भी दी गई है।

एक व्यक्ति, जो कट-ऑफ तिथि तक सदस्य नहीं है, को इस सूचना को केवल सूचना के उद्देश्य

डिपॉजिटरी यानी सीडीएसएल और एनएसडीएल के माध्यम से लॉगिन से संबंधित किसी भी

तकनीकी मुद्दे के लिए डीमैट मोड में प्रतिभृतियों को रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों के लिए

ı								-						
ı	डीमैट म	गध्यम	में	लॉगिन	में रि	कसी '	भी तव	_ह नीकी	समस्या	का	सामना	करने	वाले	सदस्य
l	डीमैट म सीडीएसएल	के	साथ	helpdes	k.e	voting	g@cc	dslind	ia.com	पर	अनुरोध	भेजकर	सीडीप	रसएल
l	प्रतिभूतियाँ	रखने	वाले	हेल्पडेस्क	से	संपर्क	कर	सकते	हैं या	022	2- 230	58738	और	22-
I	व्यक्तिगत शेर	परधारक		2305854	2-4	3 पर र	संपर्क :	कर सव	हते हैं।					

में लॉगिन में किसी भी तकनीकी समस्या का सामना करने वाले सदस्य evot-साथ ing@nsdl.co.in पर अनुरोध भेजकर एनएसडीएल हेल्पडेस्क से संपर्क प्रतिभृतियाँ रखने वाले कर सकते हैं या 1800 1020 990 तथा 1800 22 44 30 पर संपर्क कर व्यक्तिगत शेयरधारक सकते हैं।

इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान की सुविधा से जुड़ी सभी शिकायतों को श्री राकेश दलवी, वरिष्ठ प्रबंधक, (सीडीएसएल,) सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड, ए विंग, 25वीं मंजिल मैराथन फ्यूचरएक्स, मफतलाल मिल कंपाउंड्स, एनएम जोशी मार्ग, लोअर परेल (पूर्व), मुंबई 400013 को संबोधित किया जा सकता है, या helpdesk.evoting@cdslindia.com पर ईमेल भेजें या 022-23058542/43 पर कॉल करें।

इसके अलावा, सुश्री पूनम (FCS: 10994), कंपनी सचिव एवं कंपनी की अनुपालन अधिकारी र्भ रिमोट ई-वोटिंग से जुड़ी शिकायतों को दूर करने के लिए नीचे दिए गए विवरण पर उपलब्ध होंगी

> नाम : सुश्री पुनम पद : कम्पनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

दूरभाष नं. : 011-45824477

ई-मेल : surnidhiinvestmentltd@gmail.com मतदान पत्र के माध्यम से मतदान की सुविधा 28वीं वार्षिक आम बैठक में भी उपलब्ध कराई

जाएगी और बैठक में भाग लेने वाले सदस्य जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट नहीं डाला है, वे मतदान पत्र के माध्यम से बैठक में मतदान कर सकेंगे।

जिन सदस्यों ने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना मतदान कर लिया है वे 28वीं वार्षिक आम बैठक में उपस्थित हो सकते हैं किन्तु वे पुनः मतदान के पात्र नहीं होंगे।

पनः कम्पनी के निदेशक मण्डल ने कम्पनी की 27वीं वार्षिक आम बैठक के लिए निष्पक्ष एवं पारदर्शी ढंग से ई-वोटिंग प्रक्रिया (28वीं वार्षिक आम बैठक में सदस्यों द्वारा बैलट मतदान सिहत) की संवीक्षा के लिए मैसर्स उमेश कुमार एण्ड एसोसिएट्स (सीपी सं. 8361), कम्पनी

सचिव को संवीक्षक के रूप में नियुक्त किया है। बोर्ड के आदेशानसार कृते यूएसएस ग्लोबल लिमिटेड

(पूर्व की सुरनिधि इन्वेस्टमेंट लिमिटेड)

मोहित गुप्ता प्रबन्ध निदेशक

डीआईएन: 02366798

हितधारकों की सची

[भारतीय दिवाला एवं शोधन अक्षमता बोर्ड के विनियम 30 के अनुसार

(स्वैच्छिक परिसमापन प्रक्रिया), विनियम, 2017) पीजे एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड - (परिसमापन में)

(०४ सितम्बर २०२१ तक)

	(राशि रुपए में)			
	हितधारकों के नाम और पता	दावे की राशि	स्वीकृत राशि	सुरक्षा हित, यदि कोई हो
	परिचार	नन लेनदार		
J	कंपनी में कोई परिचालन लेनदार नहीं है	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	कामगार व	या कर्मचारियों	14 142	
	कंपनी में लेनदार कोई कामगार या कर्मचारी नहीं है	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	इक्विटी	शेयरधारक		
	श्री जितेंद्र कुमार यादव निवासी III, एन–51, नेहरू नगर, गाजियाबाद–201001, उत्तर प्रदेश	कुछ नही	कुछ नहीं	लागू नहीं
	श्री कामता प्रसाद यादव निवासी 54 / 3, शेखमोहम्मदपुर प्रतापगढ़—230001	कुछ नहीं	कुछ नहीं	लागू नहीं
	श्री संजय कुमार सरोज निवासी सतहरिया पंवारा, मछलीशहर बादशाहपुर, जौनपुर–222202, उत्तर प्रदेश	कुछ नहीं	कुछ नहीं	लागू नहीं
	सुश्री अमिता यादव निवासी III, एन—51, नेहरू नगर, गाजियाबाद—201001, उत्तर प्रदेश	कुछ नहीं	कुछ नहीं	लागू नहीं
	कुल	0.00	0.00	

परिसमापक, पीजे एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड पंजीकरण सं.:IBBI/IPA-001/IP-P00272/2017-18/10516 5 / 51, दूसरी मंजिल, खब्ल्यू.ई.ए. करोल बाग, नई दिल्ली— 110005

BRAND REALTY SERVICES LIMITED CIN: L74899DL1995PLC064237

Registered Office: S-8 & S-2, DDA Shopping Complex, Opposite Pocket-I, Mayur Vihar, Phase-I, Delhi-110091 Website: www. Brandrealty.in

Corporate Office: F-06/18, Plot No.D-6, Wave Silver Tower, Sector-18, Noida-201301 (U.P.)

NOTICE is hereby given that the 27th Annual General Meeting of Brand Realty Services Limited will be held on Thursday, 30th September, 2021 at 01:00 P.M. (IST) through Video Conferencing ('VC') or Other Audio-Visual Means ('OAVM') to transact businesses set out in the Notice of the AGM dated 01^{st} September, 2021 in compliance with the applicable provisions of Companies Act, 2013 ("Act"), the Circular No. 14/2020 dt. April 08, 2020, General Circular No. 17/2020 dt. April 13, 2020 and General Circular No. 20/2020 dt. May 5, 2020 issued by Ministry of Corporate Affairs ("MCA") and SEBI Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dt. May 12, 2020 to the extent applicable.

The notice alongwith annual report has been sent to those members whose email IDs are registered with the RTA/ Company/Depositories and the same is also available on the website of the Company at www.brandrealty.in.

In compliance with the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) rules, 2014, as amended from time to time and Regulation 44 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015, the Company is providing remote e-voting facility to its members to cast their vote by electronic means on the resolutions set out in the said notice. The remote e-voting period begins on Saturday, 25th September, 2021 at 9:00 am and ends on Wednesday, 29th September, 2021 at 5:00 pm. The shareholders of the Company holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date 23rd September, 2021 may cast their vote electronically. The e-voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter.

Mr. Parveen Rastogi, Practising Company Secretary has been appointed as Scrutinizer fo overseeing/ conducting the remote e-voting and the voting process in a fair and

Pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 and Regulation 42 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015, Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from 24[™] September, 2021 to 30[™] September, 2021 for the purpose of the AGM of the Company year ended 2021. By order of the Board

For Brand Realty Services Limited

Date: 04th September, 2021 Place: Delhi

दिनांक : 01 सितम्बर 2021

स्थान : नई दिल्ली

NIKITA GARG COMPANY SECRETARY

STARLIT

स्टारिलट पॉवर सिस्टम्स लिमिटेड पंजीकृत कार्यालय : ए-1/51, एलजीएफ, सफदरजंग एन्कलेव, नई दिल्ली-110029

सीआईएन : L37200DL2008PLC174911, दूरभाष नं. : 011-26102670 वेबसाइट : www.starlitpower.com, ई-मेल : secretarial@starlitgroup.net 13वीं वार्षिक आम बैठक, ई-वोटिंग तथा बुक क्लोजर की सुचना

एतद्वारा सुचना दी जाती है कि एजीएम की सुचना में निर्धारित व्यवसाय को लेन–देन करने के लिए स्टारलाइट पावर सिस्टम्स लिमिटेड ('कंपनी') के सदस्यों की तेरहवीं (13वीं) वार्षिक आम बैठक ('एजीएम' या 'मीटिंग') बुधवार, 29 सितंबर, 2021 को सुबह 10.30 बजे होगी (भा.मा.स.) पर वीडियो कॉन्फ्रेंस/अन्य ऑडियो विजुअल साधनों ('ओएवीएम') के माध्यम से आयोजित की जायेगी। कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा दिनांक 8 अप्रैल, 2020, 13 अप्रैल, 2020, 5 मई, 2020 और 13 जनवरी, 2021 (सामहिक रूप से 'एमसीए परिपत्र' के रूप में संदर्भित) और भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड ('सेबी') द्वारा जारी सामान्य परिपत्र दिनांक 12 मई, 2020 और 15 जनवरी, 2021 के अनुसार, कंपनी ने वार्षिक रिपोर्ट 2020–21 के साथ 13 वीं एजीएम की सूचना, केवल इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से, उन सदस्यों को भेजी है जिनके ई–मेल पते कंपनी या रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट ('रजिस्ट्रार') और डिपॉजिटरी के साथ पंजीकृत हैं। एजीएम की सूचना की भौतिक प्रतियां भेजने की आवश्यकता को एमसीए परिपत्रों और सेबी परिपत्रों के माध्यम से समाप्त कर दिया गया है। कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट 2020-21, अन्य बातों के साथ-साथ, 13वीं एजीएम की सूचना और व्याख्यात्मक विवरण कंपनी की वेबसाइट www.starlitpower.com पर और बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com पर उपलब्ध है। इसकी एक प्रति सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड ('सीडीएसएल') की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।

समय-समय पर संशोधित कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 108, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया द्वारा जारी सामान्य बैठकों पर सचिवीय मानक (एसएस-2) और सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 44 के अनुपालन में, कंपनी अपने सदस्यों को एजीएम के दौरान व्यवसाय के लेन-देने के संबंध अपने सदस्यों को एजीएम से पूर्व/दौरान रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा प्रदान कर रही है और इस उद्देश्य के लिए, कंपनी ने इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के माध्यम से मतदान की सुविधा के लिए सीडीएसएल को नियुक्त

रिमोट ई-वोटिंग के लिए विस्तृत निर्देश 13वीं एजीएम सूचना में दिए गए हैं। सदस्यों से निम्नलिखित पर ध्यान

रिमोट ई-वोटिंग सुविधा निम्नलिखित अवधि के दौरान उपलब्ध होगी:

रिमोट ई-वोटिंग प्रारम्भ होने की तिथि रिविवार, 26 सितम्बर, 2021 (9.00 बजे पूर्वा. भा.मा.स.)

मंगलवार, 28 सितम्बर, 2021 (5.00 बजे अप. भा.मा.स

1. इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान की अनुमति 28 सितंबर, 2021 को सायं 05:00 बजे के बाद नहीं द जाएगी। एजीएम की सूचना में निर्धारित व्यवसायों को ई-वोटिंग या एजीएम में ई-वोटिंग सुविधा के माध्यम

सदस्यों का वोटिंग अधिकार कट-ऑफ तिथि यानी 22 सितंबर, 2021 को कंपनी की चकता इक्विटी शेयर पूंजी के उनके शेयरों के अनुपात में होगा। रिमोट ई-वोटिंग सिस्टम की सुविधा भी इस दौरान उपलब्ध कराई जाएगी और बैठक में भाग लेने वाले वे सदस्य, जिन्होंने पहले से ही रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट नर्ह डाला है, बैठक के दौरान अपने मताधिकार का प्रयोग करने में सक्षम होंगे। कोई व्यक्ति जिसका नाम कट-ऑफ तिथि तक सदस्यों के रजिस्टर/लाभार्थी स्वामियों के रजिस्टर में दर्ज है, केवल एजीएम से पर्व/दौरान रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा का लाभ उठाने का पात्र होगा। जिन सदस्यों ने बैठक से पहले रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट डाला है. वे भी इलेक्टॉनिक रूप से बैठक में भाग ले सकते हैं. लेकिन वे फिर से मतदान करने के हकदार नहीं होंगे

व्यक्तिगत शेयरधारक जो इलेक्ट्रॉनिक मोड में प्रतिभृतियां रखते हैं और जो कंपनी के शेयरों का अधिग्रहण करते हैं और सूचना के प्रेषण के बाद कंपनी के सदस्य बन जाते हैं और कट-ऑफ तिथि के अनुसार शेयर रखते हैं, एजीएम की सूचना में उल्लिखित लॉगिन प्रक्रिया का पालन कर सकते हैं।

सदस्य ई-वोटिंग सविधा के लिए एनएसडीएल या सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड ('सीडीएसएल' के साथ पंजीकृत डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के माध्यम से धारित डीमैट खाते के मौजूदा लॉगिन क्रेडेंशियल का उपयोग करके भी लॉगिन कर सकते हैं।

4. जो व्यक्ति कट-ऑफ तिथि तक सदस्य नहीं है, उसे एजीएम की सूचना को केवल सूचना के उद्देश्य से

श्री नकुल प्रताप सिंह, प्रोपराइटर, एनपीएस एंड एसोसिएट्स, कंपनी सेक्रेटरी-इन-प्रैक्टिस (सीपी नंबर 22069), को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से वोटिंग और रिमोट ई-वोटिंग प्रक्रिया की जांच करने के लिए संवीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है।

6. इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान की सुविधा से संबंधित सभी शिकायतों को श्री राकेश दलवी, वरिष्ठ प्रबंधक, सीडीएसएल, ए विंग, 25वीं मंजिल, मैराथन फ्यूचरेक्स, मफतलाल मिल कंपाउंड, एनएम जोशी मार्ग, लोअर परेल (पूर्व), मुंबई-400013 को संबोधित किया जा सकता है या helpdesk.evoting@cdslindia.com पर ईमेल भेजें या 022-23058542/43 पर कॉल करें। इसके अलावा, सदस्य श्री मुकेश कुमार, प्रबंधक, बिगशेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, आरटीए से भी mukesh@bigshareonline.com पर या टेलीफोन नंबर: 011-42425004

परिणामों की घोषणा बैठक के समापन से अधिकतम अडतालीस घंटे के भीतर कर दी जायेगी जिसे बीएसई लिमिटेड के साथ दाखिल कराने के उपरान्त कंपनी की वेबसाइट (www.starlitpower.com) पर पोस्ट किया जायेगा। इसे कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर भी प्रदर्शित किया जाएगा। जिन सदस्यों ने अपना ईमेल-आईडी पंजीकृत नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कि वे नीचे दी गई प्रक्रिया का पालन करके इसे पंजीकृत करें:

भौतिक ईमेल पता पंजीकृत कराने के लिए कंपनी के रजिस्ट्रार और अन्तरण एजेंट, बिगशेयर सर्विसेज धारिता | प्राइवेट लिमिटेड को mukesh@bigshareonline.com पर एक अनुरोध भेजें, जिसके साथ फोलियो नंबर, शेयरधारक का नाम, शेयर प्रमाण पत्र की स्कैन की गई कॉपी (आगे और पीछे), पैन (पैन कार्ड की स्व-प्रमाणित स्कैन कॉपी), आधार (आधार कार्ड की स्व-प्रमाणित स्कैन

डीमैट किपया अपने बैंक विवरण को मुल कैंसिल्ड चेक के साथ हमारे आरटीए (यानी बिगशेयर सर्विसेज धारिता | प्राइवेट लिमिटेड, टी 302, कुशल बाजार 32-33, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली -110019) के पास फोलियो नंबर का उल्लेख करते हुए पत्र भेजें (यदि पहले से पंजीकृत नहीं है) । डिमटेरियलाइज्ड मोड में शेयर रखने वाले सदस्य, जिन्होंने अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ अपने ईमेल पते को पंजीकृत/अपडेट नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कि वे अपने संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागियों से संपर्क करके अपने ईमेल पते को पंजीकृत/अपडेट करें, जिनके साथ उनके डीमैट खाते अनुरक्षित हैं।

बुक क्लोजर : कंपनी के सदस्यों का रजिस्टर और शेयर अन्तरण पुस्तिकाएँ गुरुवार, 23 सितंबर, 2021 से बुधवार, 29 सितंबर, 2021 (दोनों तिथियाँ शामिल) तक 13वीं एजीएम के उद्देश्य से बंद रहेंगी।

वीसी या ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने वाले सभी शेयरधारक / सदस्य, जो बोलना या प्रश्न करना चाहते हैं, वे 22 सितंबर, 2021 को या उससे पहले अपने फोलियो नंबर, डीपी आईडी/क्लाइंट आईडी, ई-मेल आईडी और मोबाइल नं. के साथ कंपनी की ई-मेल आईडी पर

secretarial@starlitgroup.net स्वयं को पंजीकृत करेंगे। स्टारलाइट पावर सिस्टम्स लिमिटेड के लिए

लवन रहेजा स्थान : नई दिल्ली कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी दिनांक: 04.09.2021 एम नंबर: ए55438

SALORA

सलोरा इंटरनेशनल लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: डी-13/4, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेज-॥, नई दिल्ली-110 020 सीआईएन: L74899DL1968PLC004962

ईमेल: sect@salora.com, वेबसाइट: www.salora.com

दुरभाष.: 011-40115817

सलोरा इंटरनेशनल लिमिटेड की 52वीं वार्षिक आम बैठक

सदस्यों से अनुरोध है कि कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") और उसके तहत बनाए गए नियमों के सभी लागू प्रावधानों के अनुपालन में, और भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड ("सेबी") (सचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015, (सेबी सुचीकरण विनियम) और एमसीए परिपन्न दिनांक 13 जनवरी, 2021, 08 अप्रैल, 2020, 13 अप्रैल, 2020, 05 मई, 2020 परिपत्रों और इस संबंध में सेबी और एमसीए द्वारा जारी अन्य लाग् परिपत्र (सामूहिक रूप से "परिपत्र" के रूप में संदर्भित) के साथ पठित के अनुपालन में सलोरा इंटरनेशनल लिमिटेड ("कंपनी") की 52वीं वार्षिक आम बैठक ("एजीएम") वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी") के माध्यम से बुधवार, 29 सितंबर, 2021 को पूर्वाह्र 11:00 बजे 52वीं एजीएम की सूचना में निर्धारित किए जाने वाले व्यवसाय का लेन-देन करने के लिए आयोजित की जाएगी। 52वीं एजीएम के लिए निर्णायक स्थल कंपनी का पंजीकृत कार्यालय होगा। 52वीं एजीएम की सूचना, ई-वोटिंग के लिए प्रक्रिया और निर्देश और वार्षिक रिपोर्ट 2020-21

की इलेक्ट्रॉनिक प्रतियां उन सदस्यों को भेजी जाएंगी जिनकी ईमेल आईडी आरटीए/कंपनी/डिपॉजिटरी के साथ पंजीकत हैं। जिन सदस्यों ने अपना ईमेल पता पंजीकृत नहीं किया है, उनसे अनुरोध किया जाता है कि वे डिपॉजिटरी के साथ इलेक्ट्रॉनिक रूप में धारित शेयर के संबंध में डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंटस के माध्यम से और भौतिक रूप में धारित शेयरों के संबंध में रजिस्टार और ट्रांसफर एजेंट

("आरटीए"), स्काईलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, डी-153-ए, पहली मंजिल, ओखला इंडस्टियल एरिया, फेज- ।, नई दिल्ली-110020 कंपनी को ई-मेल/लिखित भेजकर पंजीकरण कराएं। 52वीं एजीएम और वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 की सूचना कंपनी की वेबसाइट

www.salora.com और बीएसई की वेबसाइट www.bseindia.com पर उपलब्ध कराई कंपनी अपने सदस्यों को एजीएम में रिमोट ई-वोटिंग और ई-वोटिंग दोनों के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वोट देने के अपने अधिकार का प्रयोग करने की सुविधा प्रदान करेगी। भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्य या जिन्होंने अपना ईमेल पता पंजीकृत नहीं किया है,

ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट डाल सकते हैं, ई-वोटिंग की प्रक्रिया पर निर्देश, 52वीं एजीएम की स्चना के हिस्से के रूप में प्रदान किया जाएगा। सदस्यों से अनुरोध है कि एजीएम के नोटिस में निर्धारित सभी निर्देशों को ध्यान से पढ़ें और विशेष रूप से एजीएम में शामिल होने के निर्देश, रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से वोट डालने का

तरीका और एजीएम के समय ई-वोटिंग को ध्यान से पढें। सलोरा इंटरनेशनल लिमिटेड के लिए

दिनांक: 03 सितंबर, 2021 जगह: नई दिल्ली

(अनुभव निगम) कंपनी सचिव &अनुपालन अधिकारी मे. नंबर A59262

एचएफसीएल लिमिटेड (पर्व में हिमाचल फ्यचरिस्टिक कम्यनिकेशंस लि.)

सोलन-173 213 (हिमाचल प्रदेश) टेली.: 91-1792-230644, फैक्स: 91-1792-231902, ई-मेल: secretarial@hfcl.com वेबसाइट: www.hfcl.com/ कॉर्पोरेट पहचान संख्या (CIN): L64200HP1987PLC007466

पंजीकृत कार्यालयः ८, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉम्पलेक्स, चम्बाघाट,

34वीं वार्षिक साधारण सभा (ई-एजीएम), ई-वोटिंग तथा पुस्तक बंद होने की सुचना एतदुद्वारा सुचित किया जाता है किः

क) एचएफँसील लिमिटेड की 34वीं वार्षिक साधारण सभा (ई-एजीएम) गुरुवार, 30 सितम्बर, 202[.] को 11.00 बजे पूर्वा. (आईएसटी) में विडियो कान्फ्रेंसिंग (''वीसी'')/ अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों ('ओएवीएम') सुविधा के माध्यम से आयोजित की जाएगी जिसमें 34वीं एजीएम की सूचना में वर्णित व्यवसायों को निष्पादित किया जाएगा। ख) कोविड-19 महामारी के प्रसार तथा लोगों की आवाजाही पर लगाये गये प्रतिबंधों को देखते हए

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ने क्रमशः अपनी साधारण सर्क्युलर नम्बर 14/2020, 17/2020, 20/2020 तथा 02/2021, तिथि 8 अप्रैल 2020,13 अप्रैल, 2020, 5 मई , 2020 तथा 13 जनवरी, 2021 तथा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने अपने सर्क्युलर्स SEBI/CFD/CM01/CIR/2020/79 तिथि 12 मई, SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR /P/2021/11 तिथि 15 जनवरी, 2021 (''सर्क्यूलर्स'') के माध्यम से किसी सामृहिक स्थल पर सदस्यों की शारीरिक उपस्थिति के बिना वीसी/ ओएवीएम के माध्यम से ई-एजीएम के आयोजन की अनुमति प्रदान की है। कम्पनी अधिनियम, 2013 (''अधिनियम''), सेबी (सूचीयन दायित्व एवं उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 (''सेबी सूचीयन विनियमन'') तथा सर्क्युलर्स के अनुपालन में कम्पनी की 34वीं एजीएम वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जा रही है तथा सदस्यगण वीसी/ओएवीएम द्वारा आगामी एजीएम में उपस्थित तथा

ग) कम्पनी ने सदस्यों को नेशनल सिक्यरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) द्वारा उपलब्ध कराई गई वीसी/ओएवीएम सविधा के माध्यम से 34वीं एजीएम में शामिल हो सकते हैं।

घ) सर्क्युलर्स के अनुपालन में वित्त वर्ष 2020-21 के वार्षिक रिपोर्ट के साथ 34वीं एजीएम की सुचना केवल इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से उन्हीं सदस्यों को भेजी जाएगी जिनके ईमेल पते कम्पनी/ डिपॉजिटरीज/ डिपॉजिटरीज पार्टिसिपैन्ट्स के पास पंजीकृत हैं। सदस्यगण यह ध्यान रखें कि वार्षिक रिपोर्ट के साथ 34वीं एजीएम की सूचना कम्पनी की वेबसाईट www.hfcl.com, स्टॉक एक्सचैंजों की वेबसाइटों अर्थात बीएसई लिमिटेड www.bseindia.com तथा नेशनल स्टॉक एक्सचैंज ऑफ इंडिया लिमिटेड www.nseindia.com तथा एनएसडीएल की वेबसाईट www.evoting.nsdl.com.

ङ) कम्पनी (प्रबंध एवं प्रशासन) नियमावली, 2014 के नियम 20, सेबी सूचीयन विनियमनों के विनियमन ४४ तथा साधारण सभाओं पर सचिवालयी मानक (एसएस-2) के साथ पठित अधिनियम की धारा 108 के प्रावधानों के अनुपालन में यह कम्पनी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली (रिमोट ई-वोटिंग तथा ई एजीएम के दौरान ई-वोटिंग) का उपयोग करते हुए 34वीं एजीएम की सूचना में निर्दिष्ट सभी प्रस्तावों पर सदस्यों को अपना मतदान करने की सुविधा सहर्ष उपलब्ध करा रही है तथा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली के माध्यम से मतदान की सविधा उपलब्ध कराने के लिए एनएसडीएल की सेवाएं प्राप्त की गई है। रिमोट ई-वोटिंग/ ई-वोटिंग की विस्तृत प्रक्रिया 34वीं एजीएम की सूचना में उपलब्ध कराई

च) भौतिक पद्धति में शेयर धारित करने वाले शेयरधारकों जिन्होंने कम्पनी के पास अपने ईमेल पते पंजीकृत/ अद्यतन नहीं कराये हों, वे कृपया secretarial@hfcl.com पर ईमेल द्वारा कम्पनी के सिचवालयी विभाग में अथवा admin@mcsregistrars.com. पर कम्पनी के आरटीए के से सम्पर्क कर/ लिख कर उसे पंजीकृत/ अद्यतन करा लें। डिमैटेरियलाइज्ड पद्धत्ति में शेयर धारित करने वाले शेयरधारक अपने ईमेल पते को पंजीकृत/ अद्यतन कारने के लिए अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपैन्ट्स से सम्पर्क करें। लिखित में अनरोध करें। एचएफसीएल लिमिटेड के लिए

स्थानः नर्ड दिल्ली

तिथि: 3.9.2021

(पूर्व में हिमाचल प्यूचरिस्टिक कम्युनिकेशंस लिमिटेड) हस्ता./- (मनोज वैद्य) वरिष्ठ उपाध्यक्ष (कॉर्पोरेट) एवं कम्पनी सचिव

MODIPON LIMITED

Regd. Office: Hapur Road, Modinagar, Ghaziabad -201 204 (UP)

Phone: (01232) 243471; E-mail: modipon@modimangal.in Website: www.modipon.net NOTICE OF 54™ ANNUAL GENERAL MEETING, BOOK CLOSURE AND

Notice is hereby given that the 54" Annual General Meeting (AGM) of the members of Modipor imited will be held through Video Conferencing ("VC")/Other Audio Visual Means ("OVAM") on Monday, 27° September, 2021 at 3.00 p.m. to transact the Ordinary and Special Business, as se out in the Notice of AGM. The Notice of the meeting, Annual Report for the Financial Year ended March 31, 2021 and remote e-voting details have been sent in electronic mode to all the members whose email Ids are registered with the Company/RTA/Depository. The electronic dispatch of the Annual Report & AGM Notice to the shareholders has been completed by 4" September, 2021.

Members who have not registered their email Id with the Company/Depository, may send written request to the Registrar and Transfer Agents of the Company, MAS Services Limited at info@masserv.com providing Folio number, Name of Shareholder, scanned copy of the Share Certificate (Front and Back), PAN (Self attested scan copy of PAN Card), AADHAR (Self attested scanned copy of Aadhar Card) in case of physical holding

Members are further requested to send their bank details with original cancelled cheque to our RTA (i.e. MAS Services Limited, T-34, 2rd Floor, Okhla Industrial Area, Phase-II, New Delhi-110020) alongwith letter mentioning folio no. if not registered already.

In case shares held in Demat mode, members are requested to contact their Depository Participant (DP) respectively.

The Annual Report including the AGM notice is also available on Company's website

www.modipon.net, the Website of NSDL https://www.evoting.nsdl.com and on the website of BSE Limited www.bseindia.com. Pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with the Companies (Management and Administrations) Rules, 2014 as amended and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 the Company has engaged the service of NSDL to provide the facility to members to exercise their vote on the resolution proposed to be passed at the AGM by electronic voting system. The remote e-voting period commences on Friday, September 24, 2021 (09:00 am) and ends on Sunday, September 26, 2021 (05:00 pm). No e-voting shall be allowed beyond the said date and time. During this period members of the Company, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date of Monday, September 20, 2021, may cast their votes by remote e-voting. Any person, who acquires shares and becomes member of the Company after dispatch of the notice and holding shares as of the cut-off date i.e. Monday, September 20, 2021 may obtain the login ld and password by sending a request at evoting@nsdl.co.in/ helpdesk@cdslindia.com or RTA, MAS Services Limited at info@masserv.com. However, if the members are already registered with NSDL for remote e-voting then they can use their existing user Id and password for casting their vote. The remote e-voting module shall be disabled by the NSDL for voting thereafter. Once, the vote on a resolution is cast by the member, the member shall not allowed to change it subsequently. The facility for voting through e-voting shall be made available at the AGM and the members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their votes again. Mr. Ranjee Kumar Verma, Practicing Company Secretary (Membership No. F6814 and CP No. 7463), Proprietor M/s Ranjeet Verma & Associates, Company Secretary has been appointed Scrutinizer for the e-voting process. The detailed procedure for remote e-voting is contained in the letter sent with the Notice of AGM. Any query/grievance relating to e-voting may be addressed to Mr. Vineet Kumar Thareja, Company Secretary & Compliance Officer, Modipon Limited, Hapur Road, Modinagar-201204, UP, Phone-01232-243471, Email: vkthareja@modimangal.in and to Registrar & Share Transfer Agent of the Company at info@masserv.com. NOTICE is also hereby given pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013, Rule 10 of the

Companies (Management & Administration) Rules 2014 and Regulation 42 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015 that the Register of Members and Share Transfer Books of the Company remain closed from 21" September, 2021 to 27" September, 2021 (both days inclusive) for the purpose of taking record of the Shareholders at the

The Voting results of the AGM alongwith Scrutiniser's Report will be declared as per the statutory timelines and will also be posted on the Company's website www.modipon.net, the website of NSDLhttps://www.evoting.nsdl.com and on the website of BSE Limited www.bseindia.com.

Place: New Delhi

Date: 04.09.2021

For Modipon Limited Vineet Kumar Thareja

Company Secretary and Compliance Officer

तिथि: 4.9.2021

स्थानः शामली

हितधारकों की सची

[भारतीय दिवाला एवं शोधन अक्षमता बोर्ड के विनियम 30 के अनुसार

हितधारकों के नाम और पता

निवासी 401, महावीर जी कॉम्प्लेक्स.

दिनांक : 01 सितम्बर 2021

की जायेगी।

एलएससी, ऋषम विहार, दिल्ली—110092

(रवैच्छिक परिसमापन प्रक्रिया), विनियम, 2017)

अंजनी स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड - (परिसमापन में) (01 सितम्बर 2021 तक) (राशि रुपए में) सरक्षा हित,

दावे की राशि स्वीकत राशि

यदि कोई हो परिचालन लेनदार लागू नहीं कंपनी में कोई परिचालन लेनदार नहीं है लागू नहीं लागू नहीं कामगार या कर्मचारियों 2. किंपनी में लेनदार कोई कामगार या लागू नहीं लागू नहीं लागू नहीं कर्मचारी नहीं है इक्विटी शेयरधारक

 श्री जितेंद्र कुमार यादव कुछ नही कुछ नहीं लागू नहीं निवासी॥।, एन–51, नेहरू नगर, गाजियाबाद-201001, उत्तर प्रदेश श्री कामता प्रसाद यादव कुछ नहीं कुछ नहीं लागू नहीं निवासी 54 / 3, शेखमोहम्मदपुर प्रतापगढ-230001 श्री संजय क्मार सरोज कुछ नहीं कुछ नहीं लागू नहीं निवासी सतहरिया पंवारा, मछलीशहर बादशाहपुर, जीनपुर-222202, उत्तर प्रदेश 6 श्री महेंद्र नाथ यादव कुछ नहीं कुछ नहीं लागू नहीं

> राजेश कुमार पारख परिसमापक, अंजनी स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड पंजीकरण सं.:IBBI/IPA-001/IP-P00272/2017-18/10516

5/51, दूसरी मंजिल, डब्ल्यु.ई.ए. करोल बाग, नई दिल्ली- 110005

0.00

स्थान : नई दिल्ली वैलिएन्ट कम्युनिकेशन्स लिमिटेड

सीआईएन: L74899DL1993PLC056652 पंजीकृत कार्यालयः 71/1, शिवाजी मार्ग, नई दिल्ली-110015 दूरभाषः +91-11-25928415, फैक्सः +91-11-25434300

ई-मेलः investors@valiantcom.com, वेबः www.valiantcom.com

0.00

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रयोज्य प्रावधानों, नियमों एवं विधिक प्राधिकरणं द्वारा जारी परिपत्रों के अनुसार बैठक में सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना वैलिएन्ट कम्युनिकेशन्स लिमिटेड (''कम्पनी'') के सदस्यों की 28वीं वार्षिक आम बैठक ('एजीएम') गुरुवार, 30 सितम्बर, 2021 को 9.30 बर्ज पूर्वा. वीडियो कांफ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य ऑडियो वीडियो साधनों (ओएवीएम) के माध्यम से आयोजित जाएगी सदस्यों के रजिस्टर तथा शेयर अन्तरण पुस्तिकाएँ एजीएम के उद्देश्य से शुक्रवार, 24 सितम्बर, 2021 से गुरुवार 30 सितम्बर, 2021 (दोनों तिथियाँ शामिल) तक बन्द रहेंगी। इन लागू होने वाले परिपत्रों के अनुपालन में वार्षिक रिपोर्ट सहित एजीएम की सुचना ईमेल द्वारा उन सभी सदस्यों के पास भेज दी गयी है जिनके ई-मेल परं कम्पनी/डीपी के साथ पंजीकृत हैं। सभी सदस्यों के पास एजीएम की सूचना ई-मेल द्वारा भेजने का कार्य : सितम्बर, 2021 को समाप्त कर लिया गया है। एजीएम की सुचना तथा वार्षिक रिपोर्ट की प्रति भौतिक रूप रं भेजने की आवश्यकता उपर्युक्त परिपत्रों के अनुसार समाप्त कर दी गयी है। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में उपस्थित होने वाले सदस्यों की परिगणना अधिनियम की धारा 103 के तहत कोरम परा करने के उद्देश्य रं

कम्पनी एजीएम में प्रस्तावित होने वाले समस्त संकल्पों के लेन-देन पर लिंक इनटाइम इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड (एलआईआईपीएल) द्वारा प्रावधानित सुविधा तथा इलेक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम से अपने मताधिकार का उपयोग करने हेतु कम्पनी अपने सभी सदस्यों को एजीएम से पूर्व रिमोट ई-वोटिंग तथा एजीएम के दौरान ई-वोटिंग सुविध प्रदान कर रही है। एजीएम के दौरान ई-वोटिंग की सुविधा उन सदस्यों के उपलब्ध करायी जायेगी जं वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में उपस्थित होंगे और उन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से संकल्प प अपना मतदान नहीं किया है। जिन सदस्यों ने एजीएम से पूर्व रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना मतदान कर लिया है वे वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में उपस्थित/भाग ले सकते हैं किन्तु वे दुबारा मतदान के पात्र नहीं होंगे रिमोट ई–वोटिंग, वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में शामिल होने तथा सदस्यों द्वारा एजीएम में ई–वोटिंग की विस्तृत प्रक्रिया एजीएम की सूचना में उपलब्ध करायी गयी है। सदस्यों को सुचित किया जाता है कि : ।. 28वीं एजीएम में निर्धारित प्रकार्य का लेन-देने ई-वोटिंग के रूप में इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा मतदान के माध्यम

२. रिमोट ई-वोटिंग सोमवार, 27 सितम्बर, 2021 (10.00 बजे पूर्वा. भा.मा.स.) को प्रारम्भ होगी और बुधवार 29 सितम्बर, 2021 (05.00 बजे अप. भा.मा.स.) को समाप्त होगी। इसके पश्चात रिमोट ई-वोटिंग सुविध एलआईआईपीएल द्वारा निष्क्रिय कर दी जायेगी और संकल्प पर एक बार मतदान कर लेने के उपरान्त सदस्य को बाद में इसमें परिवर्तन करने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

. कोई व्यक्ति जिसका नाम कट-ऑफ तिथि अर्थात गुरुवार, 23 सितम्बर, 2021 तक सदस्यों के रजिस्टर में दर्ज है, केवल वह ही रिमोट ई-वोटिंग/एजीएम के दौरान ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान का पात्र होगा। . कोई व्यक्ति एजीएम की सुचना भेजे जाने के उपरान्त कम्पनी का सदस्य बन जाता है और कट–ऑफ तिथि

तक शेयर धारण करता है वह enotices@linkintime.co.in पर निवेदन भेजकर लॉगिन आईडी औ

5. सूचना के साथ वार्षिक रिपोर्ट कम्पनी की वेबसाइट www.valiantcom.com तथा बीएसई लिमिटेड र्क वेबसाइट www.bseindia.com तथा एलएलआईपीएल की वेबसाइट https://instavote.linkin time.co.in से डाउनलोड की जा सकती है।

जिन सदस्यों को एजीएम से पूर्व या इसके दौरान ई–वोटिंग सुविधा से सम्बन्धित कोई शिकायत है तो वे इरें instameet@linkintime.co.in पर सुचित कर सकते हैं अथवा +91 (022) 49186175 पर कॉल कर सकते हैं। यह सूचना 10 अगस्त, 2021 को प्रकाशित पूर्व की सूचना दिनांक 9 अगस्त, 2021 की निरन्तरता में है।

स्थानः नर्ड दिल्ली

तिथि: 04 सितम्बर, 2021 आईसीएसआई सदस्यता सं. A1648

सर शादी लाल एण्टरप्राईजेज लिमिटेड सीआईएन : L51909UP1933PLC146675

कृते वैलिएन्ट कम्युनिकेशन्स लिमिटेड

मनीष कुमा

कम्पनी सचिव

ई-मेल आईडी : cs@ sirshadilal.com, दूरभाष नं. : 01398-250063 फैक्स : 01398-250032, वेबसाइट : www.sirshadilal.com 87वीं वार्षिक साधारण सभा, ई-वोटिंग जानकारी

पंजीकृत कार्यालय : अपर दोआब सुगर मिल शामली (उ.प्र.)-247776

तथा पस्तक बंद होने की तिथि की सचना एतदुद्वारा सचित किया जाता है कि सर शादी लाल एण्टरप्राईजेज लिमिटेड (''कम्पनी'') की 87वीं वार्षिक साधारण सभा सोमवार, 27 सितम्बर, 2021 को 11.00 बजे पूर्वा. (आईएसटी) में इलेक्ट्रॉनिक पद्धत्ति [विडियो कान्फ्रैंस (''वीसी'') अथवा अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों (''ओएवीएम'')] द्वारा आयोजित की जायेगी। बैठक का स्थान कम्पनी का पंजीकृत कार्यालय अर्थात अपर दोआब सुग

मिल शामली (उ.प्र.)-247776 माना जायेगा। सदस्य ध्यान दें कि जारी कोविड–19 महामारी को देखते हुए, कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) द्वार जारी सामान्य परिपत्र संख्या 14/2020 दिनांक 8 अप्रैल, 2020, सामान्य परिपत्र संख्या 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल, 2020, सामान्य परिपत्र संख्या 20/2020 दिनांक 5 मई, 2020 और सामान्य परिपत्र संख्या 02/2021 दिनांक 13 जनवरी, 2021 ('एमसीए परिपत्र') तथा भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड द्वारा जारी परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी1/सीआईआर/पी/2020/79 दिनांक 12 मई, 2020 और परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी2/सीआईआर/पी/2021/11 दिनांक 1 जनवरी, 2021 ('सेबी परिपत्र') के अनुपालन में, एजीएम की सचना और वार्षिक रिपोर्ट सहित वित्तीय वर्ष 2020-21 के लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण उन सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक मोड में भेजे गए ह

जिनकी ईमेल आईडी कंपनी/डिपॉजिटरी के साथ पंजीकृत हैं। सदस्यों को सचना और वार्षिक रिपोर्ट का इलेक्टॉनिक प्रेषण 04 सितंबर, 2021 को परा कर लिया

गया है। इसकी प्रति कंपनी की वेबसाइट www.sirshadilal.com पर भी उपलब्ध है। 87वीं एजीएम की सूचना तथा वार्षिक रिपोर्ट कम्पनी की वेबसाईट https://www.sirshadilal.com, रजिस्ट्रार तथा शेयर अंतरण एजेन्ट (आरटीए) की वेबसाईट https://alankit.com तथा स्टॉक एक्सचैंजो अर्थात् बीएसई लिमिटेड की वेबसाईट

https://www.bseindia.com पर भी उपलब्ध कराई जायेगी। कम्पनी (प्रबंध तथा प्रशासन) नियमावली. 2014 (''नियमावली'') तथा सेबी (सचीयन दायित्व तथा उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन (''सूचीयन विनियमनों'') के विनियमन 42 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 (''अधिनियम'') की धारा 91 के अनुसार सदस्यों के रजिस्टर तथा कम्पनी की अंतरण पस्तकें एजीएम के उद्देश्य से मंगलवार. 21 सितम्बर, 2021 से सोमवार, 27 सितम्बर, 2021 (दोनों दिवस सहित) तक बंद रहेंगे। यह कम्पनी रिमोट ई-वोटिंग तथा एजीएम में ई-वोटिंग दोनो प्रणाली द्वारा सदस्यों को 87वीं एजीएम की सूचना में निर्दिष्ट व्यवसायों पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों रं मतदान की सुविधा उपलब्ध करा रही है।

सभी सदस्यों को सूचित किया जाता है किः सदस्यगण लिंक https://eservices.nsdl.com पर जा जाकर तथा अपने रिमोट ई-वोटिंग क्रेडेन्शियल्स का उपयोग कर वीसी के माध्यम से 87वीं एजीएम में शामिल हो सकते हैं। वीसी द्वारा भागीदारी के लिये निर्देश तथा वह प्रक्रिया जिसमें भौतिक पद्धत्ति में शेयरधारित करने वाले सदस्यों जिन्होंने अपने ई-मेल पता पंजीकृत नहीं कराये हैं, वे ई-वोटिंग द्वारा मतदान करेंगे, सहित ई-वोटिंग की प्रक्रिया 87वीं एजीएम की सुचना के एक भाग के रूप में उपब्लध कराई गई है। जिस व्यक्ति का नाम सदस्यों के रजिस्टर अथवा सोमवार, 20 सितम्बर, 2021 (कट-ऑफ तिथि)

को डिपॉजिटरीज द्वारा प्रबंधित लाभभोगी स्वामियों के रजिस्टर में शामिल होगा, वे रिमोट ई-वोटिंग अथवा एजीएम में ई-वोटिंग द्वारा मतदान करने के लिये अधिकत होंगे। रिमोट ई-वोटिंग शुक्रवार, 24 सितम्बर, 2021 को 9.00 बजे पूर्वा. (आईएसटी) में शुरू होगी तथ रविवार, 26 सितम्बर, 2021 को 5.00 बजे अप. (आईएसटी) में बंद होगी। जिसके बाद रिमोट ई-वोटिंग पद्धति निष्क्रिय/ बाधित कर दी जायेगी। उक्त तिथि एवं समय के बाद रिमोट ई–वोटिंग की

अनुमति नहीं दी जायेगी। एजीएम सूचना में वर्णित प्रस्ताव पर एक बाद मतदान कर देने के बाद सदस्यों

को उसमें परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जायेगी तथा रिमोट ई-वोटिंग से किये गये मतदान को निर्णायक यदि कोई व्यक्ति एजीएम सूचना के प्रेषण के बाद शेयर अर्जित करते हैं तथा कम्पनी का सदस्य बनते हैं तथा कट-ऑफ तिथि को शेयर धारित करते हैं, वे यदि मै. अलंकित एसाइन्मेन्टस लिमिटेड के पास ई-वोटिंग के लिये पहले से पंजीकृत है, तो अपने वर्तमान यूजर आईडी तथा पास्वर्ड का प्रयोग कर सकते हैं अथवा वे एजीएम सूचना में वर्णित विस्तृत प्रक्रिया का अनुसरण करें या वं

evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेजकर यूजर आईडी तथा पास्वर्ड प्राप्त कर सकते हैं या 1800 1020 990 तथा 1800 22 4430 पर कॉल करें। ई- एजीएम में शामिल होने वाले सदस्यों जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग द्वारा पहले मतदान नहीं किये हों, वे एजीएम के दौरान (जब अध्यक्ष के निर्देशानुसार ई-वोटिंग का विण्डो सिक्रय किया जाता है) इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना मतदान कर सकते हैं। रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपने मताधिकार का प्रयोग कर लिये होने के बावज़द भी सदस्य ई-एजीएम में शामिल हो सकते हैं लेकिन एजीएम के दौरान फिर

से मतदान करने के लिये अधिकृत नहीं होंगे। जिन सदस्यों ने अपने ई-मेल पता पंजीकृत नहीं कराये हैं, से अनुरोध है कि इलेक्ट्रॉनिक पद्धति मे धारित शेयरों के संदर्भ में अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपैन्ट्स के माध्यम से डिपॉजिटरी के पास तथ भौतिक पद्धति में धारित शेयरों के संदर्भ में कम्पनी के रजिस्ट्रार तथा शेयर अंतरण एजेन्ट, मै. अलंकित एसाइन्मेन्ट्स लिमिटेड तथा श्री शादी लाल एन्टरप्राइजेज लिमिटेड, अपर दोआब सुगर मिल शामर्ल (उ.प्र.)-247776, जिला शामली को लिखकर उसे पंजीकृत करा लें।

रिमोट ई-वोटिंग, विडियो कॉन्फ्रैंसिंग द्वारा जारी एजीएम में उपस्थित होने अथवा एजीएम के द्वारा ई-वोटिंग से संबंधित किसी प्रकार की समस्या evoting@nsdl.co.in को संबोधित की जा सकती है अथवा 1800 1020 990 तथा 1800 22 4430 पर कॉल करें। समस्याएं श्री अजय कुमार जैन, कम्पनी सचिव, तथा कम्पनी के अनुपालन अधिकारी को cs@sirshadilal.com पर ईमेल भेजकर भी संबोधित की जा सकती है।

सर शादी लाल एण्टरप्राईजेज लिमिटेड के लिये

अजय कुमार जैन

कम्पनी सचिव FCS- 5826

www.readwhere.com

स्थानः नई दिल्ली

तिथि: 4 सितम्बर, 2021